

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

Regd. Office: 5th Floor, Unit No 506, Building No 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi - 110019

Tel.: +91-11-40517610, E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com Web: www.aiml.in CIN: L65993DL1989PLC035409

Ref. No.: AIML/BSE/2020-21

February 19, 2021

To

The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

Scrip code: 534064

Sub.: Submission of Newspaper cutting pertaining to publication of Notice of Board Meeting held on February 26, 2021 to approve the un-audited Financial Result for the Quarter and Half Year ended on September 30, 2020

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, please find enclosed newspaper cuttings pertaining to Notice of the Board Meeting held on February 26, 2021 to approve the unaudited financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended on September 30, 2020 published in the newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on February 19, 2021.

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to take the same on your records.

Thanking You,

Yours faithfully

For Alliance Integrated Metaliks Limited

Saurabh Kumar Jain Saurabh Kumar Jain Company Secretary

Works: Near Vill. Sarai Banjara, P.O. Basantpura, Rajpura, Punjab-140 401 (India)

'मीडिया में कुछ भी लीक नहीं किया'

नई दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा)।

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि उसने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी 'टूलिकट' साझा करने के मामले में गिरफ्तार जलवाय कार्यकर्ता दिशा रिव के मामले की जांच से जडी कोई भी जानकारी मीडिया में लीक नहीं की है। दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में

INC-26

[Pursuant to Rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government (Regional

Director) Northern Region, New Delhi

In the matter of the Companies Act, 2013

Section 13(4) of Companies Act, 2013

and Rule 30(5) (a) of the

Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Shadowfax Technologies

Private Limited

(CIN: U72300DL2015PTC279342)

having its registered office at House No-6A Block NP, Pitampura New Delh North West DL 110034-Petitioner

Notice is hereby given to the General

Public that the Company proposes to make

application to the Central Government

(Regional Director) under Section 13 of the

Companies Act, 2013 seeking

confirmation of alteration of the

Memorandum of Association of the

Company in terms of the special resolution

passed at the Extra Ordinary General

Meeting held on 24th December 2020 to

enable the Company to change its

Registered office from "The National

Capital Territory of Delhi" to "State or

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the

registered office of the Company may

deliver or cause to be delivered or send by

registered post of his/her objections

supported by an affidavit stating the nature

of his/her interest and grounds of

opposition to the Regional Director,

Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor,

Paryavaran Bhawan, CGO Complex New

Delhi - 110003 on or before 28th February

2021 with a copy to the applicant Company

at its registered office at the address

Registered Office: House No-6A Block NP.

Pitampura New Delhi North West DL

For and on behalf of the Applicant

Abhishek Bansal

Director (07155421

Shadowfax Technologies Private Limited

मैसर्स फाइजर्व सॉल्यूशंस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड

कंपनी पंजीयक, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा,

फर्स्ट फ्लोर, एनेक्सी बिल्डिंग 30, निजामुद्दीन ईस्ट

पता : डी-65, ग्राउँड फ्लोर, जेबीसी-001, डिफेन्स

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P-02072/2020-

(ईपीएस छोड़कर राशि लाखों में)

0.01

31 मार्च, 20

0.05

30 जून, 19

समीक्षाकृत

दिल्ली साऊथ दिल्ली ढीएल 110013 इन

ई-भेल पता : caakhilahuja@gmail.com

नई दिल्ली कारपोरेट कार्य मंत्रायल

U72200DL2013FTC253678

नाम : अखिल आहुजा

कॉलोनी, दिल्ली-110024

सम्पर्क नं. : 9911331599

17 मार्च, 2021

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि मैसर्स फाइजर्व सॉल्यूशंस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड

मैसर्स फाइजर्व सॉल्युशंस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकहोल्डरों को एतदद्वारा मद 7 मे

वर्णित पते पर परिसमापक के पास 17 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा

वित्तीय लेनदारों को केवल इलेक्टॉनिक पद्धति के माध्यम से अपना दावा जमा करना होगा। अन्य

सभी स्टेकहोल्डर व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रोंनिक पद्धति से अपने दावों के प्रमाण

पशपित स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ग्राम कपरीवास (धारुहेरा) जिला रेवाड़ी, हरियाणा प्रधान कार्यालयः 127-128, त्रिभुवन काम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली- 110065

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिये स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

समीक्षाकृत

(479)

(479)

(345)

(345)

(3.71)

(3.71)

(3.71)

. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत बाम्बे

वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। उपरोक्त परिणामों पर 17 फरवरी. 2021 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा तथा 17 फरवरी.

2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा विचार किया गया।

स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही

इन विवरणों को उसके अंतर्गत निर्मित नियमावली के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के

अंतर्गत निर्दिष्ट कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (इंड ए एस) नियमावली, 2015 के साथ पठित कम्पनी

(भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) लेखा नियमावली, 2016 के

पूर्व वर्षों में कम्पनी ने धारुहेरा में अपनी फैक्ट्री भूमि के भाग के अधिग्रहण पर रु. 61.61 लाख का हर्जाना प्राप्त किया था। ऊंचे दर पर हर्जाने के भुगतान के लिये सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, गुड़गाँव-सह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग

प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी (एलए) के समक्ष प्रतिनिधित्व किया गया है। इस प्रतिनिधित्व में रु. 614.64

लाख के अतिरिक्त हर्जाने की मांग की गई है जिसका लेखा जब और जैसे वह प्राप्त हो, उसके बाद किया जायेगा। उसके आदेश तिथि 17.02.2012 के माध्यम से औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा

स्वीकृत पुनर्वास योजना के अनुसार कम्पनी ने क) 14% प्रतिभृत विमोचनीय अंशतः रुपांतरणीय डिबेन्चर्स तथा

ii) 15% प्रतिभृत विमोचनीय अंशतः रुपांतरणीय डिबेन्चर्स के बकाये के सम्पूर्ण तथा अंतिम निपटारे के लिये सभी डिबेन्चरधारकों को चैक पहले की प्रेषित कर दिया है। यदि किसी डिबेन्चर धारक को चेक प्राप्त नहीं हो, वे सुश्री दीपिका मल्होत्रा कम्पनी सचिव से उपरोक्त प्रधान कार्यालय के पते पर सम्पर्क करें अथवा cs@pasu-

राम्पर्ण विश्व में कोरोना वायरस रोग (कोविड-19) के प्रसार तथा वैश्विक महामारी के रूप में उसकी घोषणा के बाद भारत सरकार ने 24 मार्च, 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की जिससे कम्पनी का प्रचालन अस्थाई

रूप से निलम्बित हुआ तथा इससे कम्पनी के समग्र व्यावसायिक क्रियाकलापों पर प्रभाव पड़ा है। उत्पादन में गतिरोध, आपूर्ति-कड़ी टूटने, कर्मियों की अनुलब्धता, लॉकडाउन अवधि के दौरान उत्पादन सुविधाओं आदि में

क्लोजर/लॉकडाउन के द्वारा कोविड-19 ने कम्पनी के सामान्य व्यावसायिक प्रचालनों का पर प्रभाव पड़ा है

प्रचालनों को फिर से शुरू होने के बाद प्रबंधन ने लिक्विडिटी की स्थित की विस्तृत गणना की है तथा भावी नगदी प्रवाह की रूप रेखा तैयार की है तथा साथ ही विभिन्न आंतरिक तथा बाहत्र सूचनाओं का उपयोग करते

हुए उसकी कैश जनरेटिंग युनिट्स की वार्षिक अवरोध गणना में प्रयुक्त परिकल्पनाओं पर अपनी परिमम्पत्तियों की रिकवर होने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया है। परिस्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है जिससे कोविड-19 के

संभावित भविष्य के प्रभाव की सीमा तथा समयाविध पर अनिश्चितता बन रही है जो इन वित्तीय परिणामों की

स्वीकत की तिथि के प्राक्कलन से भिन्न हो सकता है। कम्पनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों से उत्पन्न किसी

31.3.2020 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 31.3.2020 को समाप्त वर्ष के अंकेक्षित आंकड़े तथा 31.12.2019

पशुपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि. के लिए

रमेश कुमार जैन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान | दिख्ली

दिनांक 13.02.2021

भौतिक परिवर्तनों तथा व्यवसाय पर उसके प्रभाव का गहनता से निगरानी कर रही है।

को समाप्त नौ माही के समीक्षाकृत आंकड़ों के बीच संतुलक आंकड़े हैं।

31 मार्च 20

(4)

mentioned below:

Date: 19.02.2021

Place: New Delhi

सार्वजनिक उद्घोशणा (भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैष्टिक परिसमापन प्रक्रिया)

विनियम, 2017 का विनियम 14}

फाइजर्व सॉल्यूशंस इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड के स्टेक्होल्डरों के ध्यानार्थ

पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष यह दलील दीं। अदालत ने पुलिस को यह हलफनामा दाखिल करने को कहा कि उसने मीडिया को जांच से संबंधित कोई भी सामग्री लीक

लीक करने से रोका जाए।

नहीं की है।

एलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स लिमिटेड सीआईएन : L65993DL1989PLC035409 पंजीकृत कार्यालय : 5वां तल, यूनिट नं. 506, बिल्डिंग नं. 57, मंजूषा बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 फोन : +91-11-40517610

ई-मेल आईडी : alliance.intgd@rediffmail.com वेबसाइट : www.aiml.in मण्डल के बैठक की सूचना

सिबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक शुक्रवार, 26 फरवरी, 2021) को आयोजित की जायेगी जिसमें अन्य बातों के अलावे 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार, अनुमोदन कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे। सेबी (इन्सायडर ट्रेडिंग निषेध) विनियमन, 2015 के लागू होने वाले विनियमनों के अनुसार कम्पनी की प्रतिभृतियों में अधिकारियों, विनिर्दिष्ट कर्मचारियों एवं संबधित व्यक्तियों द्वारा कारोबार के लिये ट्रेडिंग विण्डो 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के वित्तीय परिणामों की घोषणा के बाद 48

कथित सुचना कम्पनी की वेबसाइट https://www.aiml.in तथा बीएसई की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर देखी जा सकती है। कृत एलायस इटाग्रटड मटालक्स लामटड।

दलजीत सिंह चहल पर्णकालिक निदेशक

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 18.2.2021

1. कॉर्पोरेट व्यक्ति का नाम

कॉपॉरेट व्यक्ति के गठन की तिथि

3. प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट

4. कॉर्पोरेट व्यक्ति की कॉर्पोरेट पहचान

संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या

कॉर्पोरेट व्यक्ति के पंजीकृत कार्यालय एवं

कॉर्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंग तिथि

परिसमापक का नाम, पता, ई—मेल पता,

टेलीफोन नम्बर एवं पंजीकरण संख्या

15 फरवरी, 2021 को स्वैच्छिक परिसमापन प्रारंभ किया हैं।

तिविवडेटर का नाम और इस्ताक्षर : अखिल आहुजा

दावों के झूठे या मिथ्या प्रमाण जमा करने पर दण्डित किया जायेगा।

दावे जमा करने की अंतिम तिथि

करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

विधि : 18 फरवरी, 2021

परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)

कर से पूर्व अवधि के

(असाधारण मदों के बाद)

कर से बाद अवधि के

(असाधारण मदों के बाद)

इक्विटी शेयर पंजी

क) मूल

के अतिरिक्त आरक्षित)

मदों से पूर्व)

अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ हानि)(कर एवं असाधारण

अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेत (कर व

बाद) लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के

पूर्व वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितो

आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा

अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)

आय पति शेयर (रु. 10/- पति का) (जारी तथा

अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)

अनसार तैयार किया गया है।

patitaxtiles.com पर ईमेल करें।

स्थान : दिल्ली

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता

व्यक्ति गठित/पंजीकृत है

(अड़तालिस) घंटे तक बंद रहेंगे।

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि हमारे क्लाइंट यहां नीचे उल्लिखित अनुसूची में अधिक विशेष रूप से वर्णित परिसर (''कथित परिसर'') खरीदने के लिए श्रीमती माधरी सिंघी, वयस्क, दिल्ली, भारत की निवासी, पता : 4-ए सी1 लेन सैनिक फार्म, खानपुर, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली-110062 से बातचीत चल रही है।

श्रीमती माधरी सिंघी ने हमारे क्लाइंट को सूचित किया कि उपरजिस्ट्रार एश्योरेंस कार्यालय के साथ दिनांक 22 फरवरी, 2007 को पंजीकृत क्रम सं. 2007 के बीबीई-2-5367 के तहत बिक्री हेत् मूल अनुबंध पेनिनसुला लैण्ड लिमिटेड तथा श्रीमती माधुरी सिंघी के बीच कथित परिसरों के परिप्रेक्ष्य किया गया था, वह खो गया तथा/अथवा मिस प्लेस हो गया है और इयू डिलिजेंस तथा उसे खोजने के बाद भी वह उन्हें नहीं मिल पाया और यह कि उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों, बैंक तथा/अथव वित्तीय संस्थानों के पास कोई बंधक/प्रतिभूति/प्रभार तथा/अथवा उस पर लिएन के लिए रखा य जमा नहीं किया गया है।

वे सभी व्यक्ति जो किसी अनुबन्ध, डीड, दस्तावेज, राइटिंग, कन्वीएंस डीड, डिवाइज, बीक्वेस्ट सक्सेसन, फैमिली अरेंजमेंट/सेटलमेंट, मुकदमे, डिक्री अथवा कानून के किसी न्यायालय अनुबंध/ठहराव, ऋणभार अथवा अन्यथा किसी भी प्रकृति के माध्यम से बिक्री, अन्तरण एसाइनमेंट, विनिमय, आवंटन, प्रभार, ऋणभार, टीनैंसी, सब-टीनैंसी, पट्टे, उपपट्टा, लाइसेंस, बंधक, उत्तराधिकार, व्यवसाय, कब्जा, शेयर, उपहार, डिमाइज, लिएन, रखरखाव, बीक्वेस्ट, ईजमेंट, ट्रस्ट, मुनिमेंट, कोवीनैंट, कब्जा, ईजमेंट, रिलीज, रेलिन्क्विशमेंट के माध्यम से कोई हिस्सा, अधिकार, स्वामित्व, सम्पदा, हित, दावा, आपत्ति तथा/अथवा मांग रखते हों, चाहे वह कथित परिसर के किसी भाग में हो या इससे बाहर, उन्हें एतद्वारा दस्तावेजी प्रमाणों सहित लिखित में हमारे कार्यालय दुसरी मंजिल, एन.एम. वाडिया बिल्डिंग, 123 एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001 पर dhaw al.mehta@wadiaghandy.com के पास प्रति मार्क करते हुए इस प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर सचना देनी होगी जिसमें असफल होने पर ऐसा कोई हिस्सा, अधिकार स्वामित्व, लाभ, हित, दावा, आपत्ति तथा/अथवा मांग अस्वीकार कर दी जायेगी और उसे वंचित तथा/अथवा निष्कासित माना जायेगा

> यहाँ ऊपर सन्दर्भित अनुसूची (कथित परिसरों का विवरण)

10 (दस) पूर्ण प्रदत्त शेयर, विशिष्ट सं. 1981 से 1990 (दोनों शामिल), अशोक टॉवर को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा जारी शेयर प्रमाणपत्र दिनांक 16 जून, 2013 में प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 50/- (रुपये पचास मात्र), साथ ही 'स्वामित्व आधार' पर जो कुछ भी ज्ञात है उसका उपयोग, कब्जा तथा स्थान ग्रहण के स्वामित्व अधिकार, स्वामित्व सहित, फ्लैट सं. 2607, माप 758 वर्ग फीट (70.42 वर्ग मीटर के बराबर), 26वीं मंजिल पर भवन 'अशोक टॉवर' के विंग ए का कारपेट रिए तथा साथ ही कथित भवन के अहाते में 1 (एक) स्टिल्ट कार पार्क स्थान, यह भवन 56,482.71 वर्ग मीटर की भूमि पर निर्मित बिल्डिंग में है, सेवरी परेल डिवीजन का कैडस्ट्रल सर्वेक्षण सं. 107 (पार्ट) तथा 63/74 (पार्ट), पंजीकरण जिला तथा उपजिला मुम्बई में। दिनांक 19 फरवरी. 2021

> कृते वाडिया घैंडी एण्ड कं. धवल जे. मेहता साझेदार

हरि शंकर सिंघानिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

एतद्द्वारा सूचना दी गई है कि 25 अक्तूबर, 2019 से, श्री अशोक कुमार किनरा को भारतीय रिजर्व बैंक (कंपनी) के साथ पंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हरि शंकर सिंघानिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह सूचना ऊपर कथित अनुसार निदेशक की नियुक्ति के कारण कंपनी के प्रबंधन में बदलाव के लिए आरबीआई के परिपत्र सं. DNBR. (PD) CC. No. 065/03.10.001/2015-16 दिनांक 9 जुलाई, 2015 के पैरा 4 के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पत्र सं DOS.ND.No.675/N.D.S.I./05.08.493/2020-21 दिनांक 14 जनवरी, 2021 द्वारा जारी पोस्ट फैक्टो अनुमोदन की अनुपालना में प्रकाशित की जा रही है।

कोई भी व्यक्ति जिसके हित कंपनी के प्रबंधन में पूर्वोक्त परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावन है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों के भीतर हित की प्रकृति और आपत्तियं के आधार वर्णित करके भारतीय रिजर्व बैंक, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सुचित कर सकता है।

कृते हरि शंकर सिंघानिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 19 फरवरी, 2021

(स्माईली रवि सहा. कंपनी सचिव

13.32

13.32

कारपोरेट पहचान संख्याः U67120DL2004PTC126956 पंजी. कार्या.: नेहरू हाउस, तीसरी मंजिल, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

दरभाषः 011-66001112, फैक्सः 011-23716607, ईमेलः dswain@jkmail.com

वेरम प्रॉपर्टीज लिमिटेड CIN: L74899DL1985PLC021256 पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस नंबर 105, प्रोप नंबर एफ–17ए सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली — 110092

31.12.2020 को समापा तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित वितीय परिणाम

तमाप्त अवधि - समाप्त वर्ष 31.12.2020 31.03.2020 3009.2020 31.12.2020 समाप्त वर्तमान को समाप्त को समाप्त को को समाप वर्ष के इस तिबि पिछले वर्ष के तिमारी पर्ववर्ती तिमारी मलेखापरीद्वित तक आंकडे लेखापरीधित 25.93 1 कुल आय अवधि के लिए निवल लाग/ 0.31 (2.89)(5.22)(हानि) (कर, अपवादात्मक और कर पूर्व अवधि के लिए निवल (5.22)0.31 (2.74)(2.89)लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और (5.22)0.24 (2.74)(2.89)लाभ / (हानि) (अपवादात्मक और अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात) और अन्य व्यापक (5.22)गय (कर पश्चात) शामिल) 6 इक्विटी शेवर पंजी 659.75 659.75 659.75 659.75 आएक्षित (चिछले वर्ष 31.03.2020 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में

(0.003)उरोक्त में सेवी (सूचिवह प्रतिज्ञा पत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) अधिनियम 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्वेंज में दर्ज तिमाही / वार्षिक वितीय परिणामों का सार है। तिमाही वितीय वर्ष के परिणामों का पूर्ण प्रारुप स्टॉक एक्केंज की वेबसाइट, www.msei.in कंपनी की वेक्साइट http://www.fairdealpropertiesltd.com पर

13.32

13.32

मुद्ध लाग / हानि, कुल विस्तृत आय या किसी भी अन्य संबंधित वितीय आइटम में बदलाव के कारण लेखांकन नीतियाँ पर प्रभाव एक पुटनाट के माध्यम से प्रकट किया जाएगा। अध्वादित और/या असाँबारण आइटम् इंड एएस नियम/एएस नियम के अनुसार लाम और हानि के वक्तय मे

समायोजित किया जाएग, जो लागुभी है। बोर्ड के आज्ञानुसार कृते वेरम प्रॉपर्टीज लिमिटेड (पूर्व में क्यारडील प्रॉपर्टीज लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

स्थान : दिल्ली दिनांक : 13.02.2021

दशिवे गये अनुसार पुनर्मृत्यांकन

गरक्षित को छोडकर आरक्षित)

(बालू एवं बंद प्रचालनों के लिए)

प्रति शेयर अर्जन

(रु. 10 / - प्रत्येक)

विश्वास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

CIN: L65921DL1983PLC016382 पंजीकृत कार्यालय : फ्लैट-1106, 11वी मंजिल पदम टॉक्र-| राजेंद्र प्लेस नई दिल्ली - 110008 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए एकल अलेखापरीक्षित विलीय परिणाम (राशि लाख में)

		समापा	तिगडी	समाप्त अववि	समाप्त वर्ष
₹Ĭ,	विवरण	अ.122020 को सम्मप्त रिमाही अलेखापरीवित	3008,2020 को समाप्त पूर्वेवर्ती तिमाही अलेखापरीधित	31.12.2020 को समाप्त वर्तमान वर्ष के इस तिथि तक आंकड़े अलेखामरीक्षित	31,03,2020 की समाप्त पिछले वर्ष के लेखापरीबित
1	कुल आय		-	-	-
2	अवधि के लिए निवल लाम/ (हानि) (कर, अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों से पूर्व#)	(0.40)	(0.40)	(1.19)	(1.84)
3	कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों के बादमें)	(0.40)	(0.40)	(1.19)	(1.84)
4	कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाम/(हानि) (अपवादात्मक और /या अतिविशिष्ट मदों के बाद#)	(0.40)	(0.40)	(1.19)	(1.84)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(डानि) (कर पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)	(0.40)	(0.40)	(1.19)	(1.84)
6	इक्विटी शेयर पंजी	285.00	285.00	285.00	285.00
7	आरक्षित (पिछले वर्ष 31.03.2020 के शेखापरीक्षित तुलन पत्र में दर्शाये गये अनुसार पुनर्मूल्याकन आरक्षित को छोडकर आरक्षित)	(248.33)	(248.33)	(248.33)	(248.33)
8	प्रति क्षेयर अर्जन (क. 10/- प्रत्येक) (धालू एवं बंद प्रचालनों के लिए) 1. मूल: 2. तनुकृत:	(0.001) (0.001)	(0.002) (0.002)	(0.003) (0.003)	(0.005) (0.005)

उरोक्त में संबी (सूचिबद्ध प्रतिका पत्र एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) अधिनियम 2015 के अधिनियम 33 के तहत स्टॉक एक्चेज में दर्ज तिमाही/वार्षिक वितीय परिणामों का सार है। तिमाही वितीय वर्ष के परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्चेंज की वेबसाइट, www.bseindia.com कंपनी की वेबसाइट http://

www.vishvasprojects.com पर मीजूद है। शुद्ध लाभ /हानि, कुल विस्तृत आय या किसी भी अन्य संबंधित विसीय आइटम में बदलाव के कारण लेखांकन नीतियाँ पर प्रभाव एक फुटनॉट के माध्यम से प्रकट किया जाएगा। अपवादित और/या असाँधारण आइटम् इंढ एएस नियम/एएस नियम के अनुसार लाभ और हानि के वक्तय में समायोजित किया जाएग, जो लागूमी है।

(पूर्व में मेफकॉम एवो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रूप में

बोर्ड के आज्ञानुसार विश्वास प्रोजेक्ट्स सिमिटेड हस्ता/-किशोरी प्रसाद गुप्ता निर्देशक

ग्लोब लाइट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड-परिसमापन में

भवन'' के पते पर स्पष्टीकरण जिसमें परिसम्पत्ति का विवरण इस प्रकार पढ़ें: ''जी-88, सूरजपुर साईट-5, कासना, सदर, जी.बी. नगर, उत्तर प्रदेश-201310 (भूमि क्षेत्रफल माप 1800 वर्ग मी.)'' यह स्पष्टीकरण प्रकाशित की गई बिक्री सूचना में अनजाने में हुई गलती का सुधार करने के लिए परिसमापक द्वारा जारी व

तिथि: 18.2.2021 स्थानः नई दिल्ली

काशी विस्वनाथन सिवारमप ग्लोब लाइट इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के

मामले में परिसमापक IBBI पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00900/2017-2018/11497 पताः ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ईमेलः sivarita68@yahoo.com, assetsale2@aaainsolvency, सम्पर्क नं. +91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/आसिफ खान)

सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016

के विनियम 31(2) के साथ पढ़ित विनियम 12(3) के अनुरूप के मामले में स्टॉकफ्लो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) (CIN: U51909DL2006PTC157198) के हितधारकों के ध्यानार्थ

गरतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) 2016 के विनियमन 31 के अनुसार ''विनियम'') सार्वजनिक घोषणा कंपनी के सभी हितधारकों को की गई है कि कंपनी के हितधारकों की सची 15 फरवरी, 2021 को माननीय पीठ-V, एनसीएलटी दिल्ली में दायर कर दी गई है। परिसमापक द्वारा तमय—समय पर संशोधित राशि सहित स्वीकार की गई राशि का पूरा विवरण दिखाने वाले हितधारकों की सुची को समाधान प्रोफेशनल एंटिटी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है, जिसका निम्नलिखित लिंक हैं: http://primusresolutions.in/stockflow-express-pvt-ltd.html

हितधारकों को यह भी अधिसुचित किया जाता है कि हितधारकों की सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन जैसा कि माननीय एनसीएलटी खंडपीठ के समक्ष दायर की गई है, केवल माननीय एनसीएलटी खंडपीठ के गस एक आवेदन भरकर और पीठ द्वारा निर्देशित तरीके से किया जा सकता है ।

स्थान : नई दिल्ली

परिसमापक- स्टॉकफ्लो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00982-C01/2017-2018/10354

TATA STEEL BSL



टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड

(पूर्व में भूषण स्टील लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय : भूतल, मीरा कॉरपोरेट सूट्स, प्लॉट नं. 1 एवं 2, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 फोन: 91-11-39194000; फैक्स: 91-11-41010050; ईमेल: tsbsl@tatasteelbsl.co.in वेबसाइट : www.tatasteelbsl.co.in; सीआईएन : L74899DL1983PLC014942

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच मुंबई के समक्ष सीए(सीएए) 129/एमबी-॥/2019

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;

कम्पनी (समझौता, ठहराव एवं समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के मामले में;

बामनीपाल स्टील लिमिटेड एवं टाटा स्टील बीएसएल मिलिटेड (पूर्व में भूषण स्टील लिमिटेड) के साथ टाटा स्टील लिमिटेड के समामेलन की कम्पोजिट योजना के मामले में।

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (पूर्व में भूषण स्टील लिमिटेड) [सीआईएन: L74899DL1983PLC014942], कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक निगमित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अर्थ में एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय : भूतल, मीरा कॉर्पोरेट सूट्स, प्लॉट नं. 1 एवं 2, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 पर स्थित है।

....हस्तांतरण कम्पनी 2/कम्पनी

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड (पूर्व में भूषण स्टील लिमिटेड) के इक्विटी शेयरधारकों के ई-मेल पते के पंजीकरण हेतु सूचना

बामनीपाल स्टील लिमिटेड ('हस्तांतरण कंपनी 1') तथा टाटा स्टील बीएसल लिमिटेड (पूर्व में भूषण स्टील लिमिटेड) ('हस्तांतरण कम्पनी 2' अथवा 'कम्पनी') के टाटा स्टील लिमिटेड ('हस्तांतरी कंपनी') के साथ समामेलन की कम्पोजिट योजना ('योजना') की स्वीकृति हेतु माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, मुंबई बेंच ('माननीय अधिकरण') के समक्ष कम्पनी (समझौता, ठहराव एवं समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत् एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

यह सुचित किया जाता है कि कम्पनी योजना आवेदन सं. 129/एमबी-॥/2019 के संदर्भ में माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2020 तथा कम्पनी आवेदन सं. 1081/2020 में पारित आदेश दिनांक 11 जनवरी, 2021, 19 जनवरी, 2021 तथा 5 फरवरी, 2021 के अनुपालन में माननीय अधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ हस्तांतरण कम्पनी 2 के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक (**'बैठक'**) योजना पर विचार तथा यदि उचित समझा जाए तो उसके अनुमोदन के लिए वीडियो कांफ्रोंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ('वीसी/ओएवीएम') के माध्यम से शुक्रवार, 26 मार्च, 2021 को 3:00 बजे अप. (भा.मा.स.) आयोजित करने का निर्देश दिया है।

माननीय एनसीएलटी के निर्देशानुसार, कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जानी है। कंपनी ने इक्विटी शेयरधारकों को बैठक की सूचना भेजने के लिए शुक्रवार, 12 फरवरी, 2021 'निर्धारित तिथि' निर्धारित की है, जिनके नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुरक्षित सदस्यों के रजिस्टर और/या लाभार्थी स्वामियों ('पात्र शेयरधारक') के रजिस्टर में दर्ज है। उक्त सूचना, पात्र शेयरधारकों को कम्पनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटस ('आरटीए')/डिपॉजिटरीज प्रतिभागियों ('डीपीएस') के पास पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजी जाएगी। किसी भी शेयरधारक को सुचना की भौतिक प्रति नहीं भेजी जाएगी।

बैठक की सूचना हस्तांतरण कंपनी 2 की वेबसाइट http://tatasteelbsl.co.in/Amalgamation.html, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया www.nseindia.com के सम्बन्धित सेक्शन पर तथा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध होगी।

इस संबंध में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन में बैठक का आयोजन वीसी/ओएवीएम के माध्यम से किया जायेगा। पात्र शेयरधारक केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही बैठक में भाग ले सकते हैं, जिसका विवरण, हस्तांतरण कंपनी 2 द्वारा बैठक की सूचना में दिया जायेगा। तद्नुसार, कृपया नोट करें कि बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने एवं भागीदारी करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

हस्तांतरण कंपनी 2 ने बैठक की सूचना में दिए संकल्पों पर पात्र शेयरधारकों द्वारा अपने वोट डालने के लिए, एनएसडीएल के माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा (बैठक से पूर्व और साथ ही बाद में) उपलब्ध करवाई है। रिमोट ई-वोटिंग उपयोग करने की विस्तृत प्रक्रिया का विवरण, बैठक की सूचना में दिया जायेगा

हस्तांतरण कंपनी 2 के पात्र शेयरधारकों द्वारा ई-मेल पते का पंजीकरण

हस्तांतरण कंपनी 2 ने आरटीए के माध्यम से उन पात्र शेयरधारकों (इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से इक्विटी शेयर धारित करने वाले) के लिए, जो कि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करना एवं अपना वोट पोस्टल बैलट अथवा रिमोट माध्यम से डालना चाहते हैं, हेतु ई-मेल पता पंजीकृत करवाने के लिए विशेष प्रबंध किया है।

पात्र शेयरधारक, जिनके ई-मेल पते हस्तांतरण कंपनी 2/आरटीए/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे आरटीए के साथ ई-मेल पते शुक्रवार, 19 मार्च, 2021 को सांय 5:00 बजे (भा.मा.स.) तक पंजीकृत करवा सकते हैं।

पात्र शेयरधारकों द्वारा एक बार ई-मेल पता पंजीकरण करवाने हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया

इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु :

- (क) लिंक https://www.rcmcdelhi.com/updates/?cid=tsbl_ccm पर जाएं
- (ख) डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी, पैन विवरण तथा कैप्चा कोड प्रविष्ट करें।
- (ग) सिस्टम क्लाइंट आईडी तथा पैन विवरण का सत्यापन करेगा।
- (घ) सफल सत्यापन के पश्चात् सिस्टम आपको अपना ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करने की अनुमति देगा।
- (ङ) अपना ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करें।
- (च) इसके पश्चात् सिस्टम केवल सूचना की सेवा के सीमित उद्देश्य हेतु ई-मेल पते की पुष्टि करेगा।

II. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्यों हेतु :

- (क) लिंक https://www.rcmcdelhi.com/updates/?cid=tsbl_ccm पर जाएं
- (ख) भौतिक फोलियो नम्बर, पैन विवरण तथा कैप्चा कोड प्रविष्ट करें।
- (ग) यदि पैन विवरण रिकॉर्ड में उपलब्ध न हो, तो सदस्य शेयर प्रमाणपत्र नम्बर (यदि बहुत सारे शेयर प्रमाणपत्र हो तो, कोई एक शेयर प्रमाणपत्र नम्बर) प्रविष्ट करें।
- (घ) सिस्टम फोलियो नम्बर तथा पैन विवरण या शेयर प्रमाणपत्र नम्बर का सत्यापन करेगा।
- (ङ) सफल सत्यापन के पश्चात सिस्टम आपको अपना ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करने की अनुमित देगा।
- (च) अपना ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करें।
- (छ) यदि पैन विवरण उपलब्ध न हो, तो सिस्टम सदस्य से पैन कार्ड की एक स्व-प्रमाणित प्रति अपलोड करने को कहेगा।
- (ज) इसके पश्चात् सिस्टम केवल सूचना की सेवा के सीमित उद्देश्य हेतु ई-मेल पते की पुष्टि करेगा।

ई-मेल को सफलतापर्वूक प्रस्तुत करने के पश्चात्, एनएसडीएल, ई-वोटिंग यूज्र आईडी तथा पासवर्ड के साथ सूचना की प्रति ई-मेल करेगा। किसी पूछताछ के लिए, पात्र शेयरधारक investor.services@rcmcdelhi.com अथवा evoting@nsdl.co.in पर लिख सकते हैं।

यदि कोई इक्विटी शेयरधारक बैठक की सूचना तथा/अथवा योजना की प्रति प्राप्त करना चाहता है तो इस सम्बन्ध में हस्तांतरण कम्पनी 2 के पास tsbsl@tatasteelbsl.co.in पर निवेदन भेज सकता है या बैठक के दिन तक किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भूतल, मीरा कॉरपोरेट सूट्स, प्लॉट नं. 1 एवं 2, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110065 से पूर्वा. 10:00 बजे (भा.मा.स.) से दोपहर 12:00 बजे (भा.मा.स.) तक नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

ई-मेल पते के स्थाई पंजीकरण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने ई-मेल पते को अपने सम्बन्धित डिपॉजिटरी भागीदारों एवं भौतिक रूप में इक्विटी शेयर धारण करने वाले अपने ई-मेल पते को कंपनी के आरटीए-आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्रा. लि. की ई-मेल आईडी : investor.services@rcmcdelhi.com पर लिखकर अपडेट करा लें।

टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड

निशा अनिल सेठ

फरवरी 17, 2021

www.readwhere.com

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 17.2.2021

नई दिल्ली

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

OTICE BOARD

CORPORATE ASSOCIATE DIARY

APPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATIONS, HONOURS



MEDICAL CAMP - NTPC

The NTPC Tapovan team has started medical camps for the general public at Tapovan. Besides, a PIC has been working at the project site to provide information and facilitate the family members of the missing workers.



MOU - GSL

Goa Shipyard Ltd (GSL) recently signed 5 MoUs / Agreement to expand its capacity for indigenous shipbuilding, ship repair & exports. MoU was also signed with HSL. Vizag, for augmenting ship building/repair capacity.



RETAIL EXPO - CANARA BANK

RP Jaiswal, GM, HO, Canara Bank recently inaugurated a Mega Retail Expo. Ten prominent builders and three Vehicle Dealers of NCR displayed the salient features of their projects and products.



INAUGURATION - NHPC

8. LAST DATE FOR SUBMISSION OF

AK Singh, CMD, NHPC inaugurated 'Vasant Utsav 2021' at NHPC complex, Suraikund, Faridabad, in presence of NK Jain, Dir (Personnel), YK Chaubey, Dir (Tech), RP Goyal, Dir (Fin), and other senior officers of NHPC.



RESCUE WORK - BEML

The local authorities are extensively using BEML's BD50 Dozers and proving its usefulness in search, rescue & relief operations at the site of the recent glacier burst at the Tapovan Hydel Project tunnel in Chamoli district of UK.



MOU - PNB

PNB signed a MoU with IndianOil to cater to the financing needs of the IndianOil dealers, benefitting dealers with credit facilities at lower interest rates, Nil margin, and with minimum or zero collateral requirements through the PNB e-Dealer scheme.



FOUNDATION DAY - NHSRCL

On Foundation Day of NHSRCL, S Sharma, Chairman & CEO, Railway Board, praised Team NHSRCL and said the team worked hard in awarding C-4 Contract package of MAHSR in record time of 35 days during pandemic.



INAUGURATION - BOM

During his visit to Delhi Zone, Hemant Tamta, ED, BoM, inaugurated new branch premises of Asaf Ali Road Branch in presence of Team Delhi Zone headed by GM & ZM Chitra Datar.



AADI MAHOTSAV - TRIFED

The Aadi Mahotsav saw over 120 diplomats from more than 30 countries. The event Diplomats Day was organized in association with MEA. Tribal artisans also performed a live puppet show at the event.




CSR - SBI

Under the leadership of DGM M Dhingra, SBI SAMB New Delhi donated a sum of Rs.93000/- to the NGO Abhinav Samaj, which is extending its services to old age persons at its old age home.

APPOINTMENTS

IndianOil Arup Sinha has taken over as the ED (Regional Services) for IndianOil, Northern Region. Sinha would also function as the Regional Level Coordinator for the Oil and Gas industry in the 7 states and 3 union territories of the Northern Region besides being the Regional

In-Charge for key areas. Prior to this, he was the head of Regional Services in the Southern Region of IndianOil.



Accountant in 1984 and was in practice for nearly 27 years. He has also served as Chairman of WIRC of ICAI in 2004-05.



rate Laws, he has trained officials from many corporate and non-corporate entities. He has held key positions as former Chairman of the Eastern Indian Regional Council of ICAI as well as Guwahati Branch of ICAI.



TRIBUTE - CRPF

Dr. AP Maheshwari, DG, CRPF paid homage to the Pulwama Martyrs in a ceremony held in honour of the 40 CRPF Bravehearts who made supreme sacrifice in a dastardly suicide bomb attack on 14 Feb. 2019.

IRFC posted profit growth of 15.65% to Rs.2934 Crore for the nine months ended 31st December, 2020 from Rs. 2,537 Crore for the corresponding nine months in the previous year. The total revenue from operation grew by 10.76% on YoY basis for the same period to stand at Rs. 11,315.51 cr. The Board of Directors of IRFC has declared an interim dividend of Rs 1.380 cr translating to Rs.1.05 per share for the financial year 2020-21, on a face value of Rs 10 per equity share.

IRCTC Taking a step further to enhance ticket booking experience, IRCTC has introduced a strikingly new feature of instant refund to IRCTC Website / Mobile App users using "IRCTC iPay". IRCTC has now equipped its payment gateway "i-Pay" with "AutoPay" feature. In this feature, a user has to allow for debit to his UPI bank account / other payment instrument through a mandate facility which creates a lien on his payment instrument. AutoPay feature ensures higher reliability of ticket booking through the pre-authorized mandate as it reduces the user's time in keying in the payment instrument details.

ONGC The first edition of 'Upstream Ahead – Oil & Gas Exp-Ioration & Production – Towards Vision 2050' summit was held recently, under the aegis of MoPNG & DGH, providing a platform for all key stakeholders to come together & drive powerful solution-based dialogues for a smooth way forward. Hosted by ONGC, OIL, Cairn Oil & Gas (Vedanta Ltd.), & HOEC, the summit witnessed six Insight sessions, five Spotlight sessions, two High-Intensity Discussions Chaired by the Secretary, MoPNG, Tarun Kapoor & Ravi Agrawal, Addl. Secy, MoEF&CC, & two Special Interactive Sessions on Gender Diversity & Inclusion, & Youth in the Energy Sector.

IndianOil PM Modi recently laid the foundation of key projects of the oil and gas sector in Tamil Nadu via video conferencing. Prime Minister dedicated to the nation the Ramanathapuram – Thoothukudi natural gas pipeline and Gasoline Desulphurisation Unit at Chennai Petroleum Corporation Limited. He also laid the foundation stone of Cauvery Basin Refinery at Nagapattinam. Governor and Chief Minister of Tamil Nadu, and Union Minister for Petroleum and Natural Gas were present on the occasion. In the past six years, over Rs. 50,000 Crore worth of oil and gas projects have been approved for implementation in Tamil Nadu. In addition, over Rs 4,300 crore worth of projects are in the pipeline.

NOTICE

Notice is hereby given that Share certificate

no(s) 10507, 20152 & 87050, Distinctive Nos

from 2363220 to 2363225 (06), 2445672 to

2445673 (02) & 7034759 to 7034800 (42)

under folio no G000518 of Oriental Carbon

& Chemicals Ltd. Situated at 31, N S Road

Kolkata in the name of shri, Ravi Gupta and

Rachna Gupta have has been reported lost

misplaced and an application has been made by his/her tothe Company for issue of duplicate share certificate(s). The Company

hereby invites claims or objections (in writing)

for issuance of duplicate share certificate within the period of 15 (Fifteen) days from

the publication of this notice. If no claims objections are received during this period the

Company shall be free to issue duplicate

share certificate(s)



MOU - ALLIANCE AIR

Alliance Air has signed an MOU with HAL at AERO IN-DIA 2021 for operating civil Dornier – 228. Alliance Air to be the first airline to fly HAL's Made In India Dornier for passenger flights.

SBI has reached another landmark by crossing the Rs. 5 trillion (5 Lakh crore) mark in its home loan business. The bank has set its sight on achieving a home loan AUM of Rs. 7 trillion by FY 2024. The Home loan portfolio of the Bank has grown by 5 times in the last decade. On average, the Bank onboards 1000 home loan customers every day. The Bank offers home loans starting at 6.80% per annum. Approx. 2 lakh home loans have been sanctioned under PMAY.

BHEL In a major boost to Defence Production under the Make in India initiative and to achieve self-reliance in the critical field of Defence equipment, Indian Navy has placed an order on BHEL for supply of two numbers (SRGM), main guns standardised for all Warships of the Indian Navy. BHEL has indigenised these Guns & has established dedicated, intricate manufacturing and inspection facilities at its Heavy Electrical Equipment Plant, Haridwar for production, installation & commissioning and lifecycle support of these Guns.

POWERGRID has posted Profit After Tax (PAT) & Total Income for the nine months ended 31st Dec. 2020 on standalone basis as Rs.8,420 cr & Rs. 29,822 cr respectively, which are about 10 % & 7 % higher with respect to corresponding period of FY20. On a consolidated basis, the PAT & Total Income are Rs. 8,510 cr & Rs.30,007 cr respectively, registering a growth of 10 % & 7 % respectively with respect to corresponding period of FY20.

NBCC HSCC (India) Limited, a Wholly Owned Subsidiary of NBCC, has been awarded approximately Rs. 1800 Crore Phase-I Project of Up-gradation of District Hospitals into Medical Colleges at 12 Locations in the State of Rajasthan. under Central Govt. Sponsored Scheme for "Establishment of New Medical Colleges by Upgrading District/ Referral Hospitals" in phased manner.

The Embassy of the Russian Federation Russian Deputy Foreign Minister Igor Morgulov and Indian Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla held political consultations in Moscow. During the meeting, a wide range of issues pertaining to the Russian-Indian interaction was discussed. The sides underlined their aspiration to increase the trade and economic turnover by expanding cooperation in traditional and high-tech spheres.

EVENTS, ANNOUNCEMENTS, LAUNCHES, CSR INITIATIVES, APPOINTMENTS, MOVEMENTS, CELEBRATIONS FORM A

	(Voluntary Liquidation FOR THE ATTENTION)	vency and Bankruptcy Board of India on Process) Regulations, 2017) N OF THE STAKEHOLDERS OF TERNATIONAL PRIVATE LIMITED
S. No.	Particulars	
1.	NAME OF CORPORATE PERSON	M/s. Fisery Solutions International Private Limited
2.	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE PERSON	07* June, 2013
3.	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE PERSON IS INCORPORATED/REGISTERED	Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana, New DelhiMinistry of Corporate Affairs
4.	CORPORATE IDENTITY NUMBER /LIMITED LIABILITY IDENTITY NUMBER OF CORPORATE PERSON	U72200DL2013FTC253678
5.	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE (IF ANY) OF CORPORATE PERSON	First Floor, Annexe Building 30, Nizamuddin East Delhi South Delhi DL 110013 IN
6.	LIQUIDATED COMMENCEMENT DATE OF CORPORATE PERSON	15" February, 2021
7.	NAME, ADDRESS, EMAIL ADDRESS, TELEPHONE NUMBER AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE LIQUIDATOR	Name: Akhil Ahuja Address: D-65, Ground Floor, ZBC - 001, Defence Colony, Delhi-110024 Email Address: caakhilahuja@gmail.com Contact No.: 9911331599

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Notice is hereby given that the M/s Fisery Solutions International Private Limited has commenced voluntary liquidation on 15th February, 2021. The stakeholders of M/s Fisery Solutions International Private Limited are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 17th March, 2021 to the liquidator at the address

2020-2021/13213

17th March, 2021

Registration Number: IBBI/IPA-001/IP-P-02072/

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means

FORM- A PUBLIC ANNOUNCEMENT					
Name and Signature of the Liquidator: Akhil Ahuja Date: 18th February, 2021 Place: Delhi					
Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.					

FORM- A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons Regulations, 2016) FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF RUDRA BUILDWELL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED				
RELEVANT PARTICULARS				
1. Name of Corporate Debtor	Rudra Buildwell Constructions Private Limited			

2.	Date of Incorporation Of Corporate Debtor	06th October 2010
3.	Authority Under Which Corporate Debtor Is Incorporated / Registered	Registrar of Companies, Delhi
4.	Corporate Identity No./Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U45400DL2010PTC209162
5.	Address of the Registered Office and Principal Office (if any) of Corporate Debtor	Registered Office:- Flat No. 118A, G.F. Pocket 6 N Flat, Mayur Vihar, Phase-III New Delhi 110096 Inc
6.	Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor	16th February, 2021 (Copy of the order received no 17th February 2021)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	15th August 2021 (As per the pronouncement of the order)

8 Name and registration number of the Name - Mr. Prabhat Ranjan Singh insolvency professional acting as interim Reg No IBBI/IPA-002/IP-N00428/2017-2018/1123 resolution professional Address and e-mail of the interim ADDRESS: Chamber No. 119, C.K. Daphtary Block resolution professional, as registered with Supreme Court of India, Tilak Lane, New Delh National Capital Territory of Delhi, 110001,

EMAIL ID Prabhat.rs.advocate@gmail.com Address - Prabhat Ranjan Singh 10. Address and e-mail to be used for (In the matter of Rudra Buildwell Constructions Pvt. Ltd.) correspondence with the interim Resurgent Resolution Professionals LLP (IPE), 905 resolution Professional 09th Floor, Tower C, Unitech Business Zone, The Close South, Sector-50, Gurugram, Haryana-122018 Email – cirp.rudrabuildwellc@gmail.com

11. Last date for submission of claims 03rd March 2021 (14 days from the date of receiving of the order from Hon'ble NCLT, New Delhi)

12. Classes of creditors, if any, under clause(b) Real Estate Investors of sub-section (6A) of section 21, ascertained

13. Names of Insolvency Professionals identified to 1.Mr. Saurabh Agrawal IBBI/IPA-002/IP-N00344/2017-2018/109 act as Authorised Representative of creditors in 2. Mr. Abhishek Anand IBBI/IPA-002/IP-N00038/2016-2017/1007 3. Mr. Ramit Rastogi IBBI/IPA-002/IP-N00364/2017-2018/11032 (a) www.ibbi.gov.in, www.resurgentrp.com

(b) Details of authorized representatives are available at 905, 09 th Floor, Tower C, Unitech Business Zone, The Close South, Sector-50, Gurugram, Haryana-122018 Notice is hereby given that the Hon'ble National Company Law Tribunal Bench-III, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the Rudra Buildwell

Constructions Private Limited on 16th February, 2021 The creditors of Rudra Buildwell Constructions Private Limited are hereby called upon to submit thei claims with proof on or before 03rd March 2021 (as per date of receiving of the order) to the interin resolution professional at the address mentioned against entry No. 10).

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.1 to act as authorized representative of the class in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties. Prabhat Ranjan Singh Date: 18th February 2021 Interim Resolution Professional Place: New Delhi

PASUPATI SPINNING & WEAVING MILLS LIMITED Regd. Office: Village Kapriwas (Dharuhera) Distt. Rewari, Haryana Head Office: 127-128, Tribhuvan Complex, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065 STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH SEPTEMBER 2020. Rs. in Lacs except EPS

		PARK AND LONG				Chr FL O
PARTICULARS	3 Months	3 Months	3 Months	6 Months	6 Months	12 Months
	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended	Ended
	30-Sep-20	30-Jun-20	30-Sep-19	30-Sep-20	30-Sep-19	31-Mar-20
	Reviewed	Reviewed	Reviewed	Reviewed	Reviewed	Audited
Total income from operations(net) Net Profit/(Loss) for the period	1,671	593	2,860	2,264	5,421	11,238
(before Tax and Exceptional items) Net Profit/(Loss) for the period before	(177)	(479)	4	(656)	6	11
Tax (after Exceptional items) Net Profit/Loss for the period after	(177)	(479)	4	(656)	6	11
tax(after Exceptional items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for	(129)	(345)	2	(474)	3	6
the period(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital Reserve excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet of previous year Earning Per Share (for continuing	(129) 934	(345) 934		(474) 934	6 934	934 934
and discontinued operations) (before exceptional items) (of Rs. 10 each) (not annualised) a) Basic b) Diluted Earning Per Share (for continuing and discontinued operations) (after exceptional items) (of Rs. 10 each)	(1.39) (1.39)	(3.71) (3.71)		(5.10) (5.10)	0.04 0.04	0.05 0.05
(not annualised) a) Basic - Rs. b) Diluted - Rs.	(1.39) (1.39)	(3.71)	0.02 0.02	(5.10) (5.10)	0.04 0.04	0.05

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Bombay Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websited of the Bombay Stock Exchange and listed entity.

The above results have been considered by the audit committee at its meeting held on 17th

February 2021 and by the Board of Directors at its meeting held on 17th February 2021. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standard) Accounting Rules, 2016 In earlier years, the company had received compensation of Rs.61.61 lacs on acquisition of part

of its factory land at Dharuhera. Representation has been made before Sub Divisional Magistrate, Gurgaon cum competent authority(LA) of National Highway Authority of India for payment of compensation at a higher rate. Additional compensation of Rs. 614.64 lacs demanded in the representation will be accounted for as and when received. Pursuant to Rehabilitation Scheme sanctioned by Board of Industrial & Financial Reconstruction

(BIFR) vide its order dated 17.02.2012, the company has already despatched cheques to all the debentureholders towards full and final settlement of the dues of (a)14% Secured Redeemable Partly Convertible Debentures and (b) 15% Secured Redeemable Partly Convertible Debentures. If any debentureholder has not received the cheque, he may contact Ms. Deepika Malhotra, Company Secretary at the Head Office address mentioned above or

Pursuant to outbreak of coronavirus disease (COVID-19) worldwide and its declaration as

global pandemic, the Government of India declared lockdown on March 24, 2020 which led the temporary suspension of operations of the Company and has impacted the overall business activities of the Company. COVID-19 has impacted the normal business operations of the Company by way of interruption in production, supply chain disruption, unavailability of personnel, closure/lock down of production facilities etc. during the lock-down period. After resumption of operations, the management has made detailed assessmentof its liquidity position and has prepared future cash flow projections and also assessed the recoverability of its assets and factored assumptions used in the annual impairment assessment of its cash generating units. using various internal and external information. The situation is changing rapidly giving rise to inherent uncertainty around the extent and timing of the potential future impact of the COVID-19 which may be different from that estimated as at the date of approval of these financial statements. The Company will continue to closely monitor any material changes arising of future economic conditions and impact on its business. For Pasupati Spinning & Weaving Mills Ltd

Date: 17.02.2021

Ramesh Kumar Jain Chairman & Managing Director

बैक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda

[Pursuant to Rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Before the Central Government (Regional Director) Northern Region, New Delhi In the matter of the Companies Act, 201 Section 13(4) of Companies Act, 2013 and Rule 30(5) (a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Shadowfax Technologies Private Limited (CIN: U72300DL2015PTC279342) having its registered office at touse No-6A Block NP, Pitampura New Delh North West DL 110034-Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government (Regional Director) under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 24th December 2020 to enable the Company to change its Registered office from "The National Capital Territory of Delhi" to "State of

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor Paryavaran Bhawan, CGO Complex Nev Delhi - 110003 on or before 28th Februar 2021 with a copy to the applicant Compan at its registered office at the address

Registered Office: House No-6A Block NF Pitampura New Delhi North West DL

For and on behalf of the Applicant Shadowfax Technologies Private Limited Abhishek Bansal Date: 19.02.2021 Place: New Delhi Director (07155421

Branch D Block,

Shastri Nagar,

Meerut

R/o 196, Siddarth Enclave, Near Ashram Chowk, New Delhi 110014

Ravi Gupta / Rachna Gupta

ALLIANCE INTEGRATED METALIKS LIMITED

Phone: +91-11-40517610 E-mail: alliance.intgd@rediffmail.com Website: www.aiml.in

Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company scheduled to be held on Friday, 26th day of February, 2021, inter alia, to consider, approve and take on record the

Un-audited Financial Results for the Quarter

and Half Year ended on September 30, 2020

of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company will remain closed for Officers, Designated Employees & Connected Persons, till 48 (Forty Eight) hours after the declaration of Financial Results for the Quarter and Half Year ended on September 30,2020

on the Company's website at https://www.aiml.in/ and the website of BSE http://www.bseindia.com/.

Date: 18.02.2021

E-AUCTION -

SALE NOTICE

INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd. Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur-244713, Dist. Udham Singh Nagar, Ultarakhand. Phone: 05947-269500, Fax: 05947-275315 E-Mail: compliance.officer@indiaglycols.com, CIN: L24111UR1983PLC009097

Notice is hereby given to the public that the undermentioned shareholders of the Company has reported loss/misplacement of their Share Certificates as per details given below and have requested the Company for issue of duplicate Share Certificates in lieu thereof. Any objection(s) should be lodged with the Company within 15 days of the publication of this notice or else the Company will proceed to issue duplicate Share Certificates. Any person dealing with the original share certificates as mentioned below after expiry of the said notice period shall be doing so at his/her own risk and company shall not be responsible for the same.

Name of the Shareholders and Folio no.	Share Cert. No.	Distinctive No.	No of shares of ₹ 10/- each
Birnal Kumar Jain (00004068)	43735 - 37	4372771 - 4373070	300
Bhagwandas Peraj (Deceased) Joint Holder - Anii Thakker (00143406)	49363	4935571 - 4935670	100
Bhagwan Das Peraj (Deceased) Joint Holder - Anil Thakker (00140669)	61649 123439 123918 129606	6164171 - 6164270 12343171 - 12343270 12391071 - 12391170 12959671 - 12959970	100 100 100 100

(0.40)

(0.40)

(0.40)

285.00

(248.33)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Website of Stock

The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant Financial item (s) due

Exchange (s) www.bseindia.com and on the Company's website http://www.vishvasprojects.com

Place: Noida, U.P. Date: 18th February, 2021

or India Glycols Limited Ankur Jain

Preceding 3

Months Ended

30.09.2020

Unaudited

(0.40)

(0.40)

(0.40)

(0.40)

285.00

(248.33)

year ended

31.12.2020

(1.19)

(1.19)

(1.19)

(1.19)

285.00

(248.33)

VISHVAS PROJECTS LIMITED

between

01.00 PM

02.00 PM

Year Ended

revious Yea

31.03.2020

Audited

(1.84)

(1.84)

(1.84)

(1.84)

285.00

(248.33)

VISHVAS PROJECTS LIMITED (Formerly known as Mefcom Agro Industries Limited) CIN: L65921DL1983PLC016382 Reg. Office: Flat- 1106, 11™ Floor Padma Tower-I, Rajendra Place: New Delhi- 110008 STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31.12.2020

Particulars

Total Income
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional

and/or Extraordinary items#)

Exceptional and/or Extraordinary

Net Profit / (Loss) for the period

after tax (after Exceptional

and for Extraordinary items#

and Other Comprehensive

income (after tax)]

Equity Share Capital

Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)

Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year 31.03.2020

Earnings Per Share (of Rs. 10/ each) (for continuing and

liscontinued operations)-

Net Profit / (Loss) for the

period before tax (after

CIN: L65993DL1989PLC035409 Regd. Off.: 5th Floor, Unit No. 506, Building No. 57, Manjusha Building, Nehru Place, New Delhi -110019

NOTICE OF BOARD MEETING Notice is hereby given that pursuant to the

and other business(s). n accordance with the applicable Regulation:

The said Notice may be accessed For Alliance Integrated Metaliks Limited

Daljit Singh Chahal Place: New Delhi Whole Time Director

to change(s) in Accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/ AS Rules. Whichever is applicable (Formerly Known as Mefocm Agro Industries Limited)

KISHORI PRASAD GUPTA Date: 13.02.2021 DIRECTOR

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND FORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISIO RULES

8(6) AND 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES,2002

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES "APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)] E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement)

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Price/e-/

rised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentic	"As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" for recovery of below mand below -	entioned account/s. T	he details of Bo	rrower/s/Guarantor/s	/Secured Asset/s/E	ues/Reserve
Name & address of Borrower/s / Guarantor/s	Description of Property Nature of Property	Total Dues	Date & Time of E-auction.	Reserve Price EMD and Bid Increase Amount.	(Constructive	Property Inspection Date & Time.
rrower: 1. Sh. Shakir Ahmed S/o Sh. Saeed Ahmed	All the part and parcel of Residential Building situated at House No. 4/461,	Rs. 18.30.935.88	09.03.2021	Reserve Price	Physical	05.03.2021

R/o House No. 4/461, Sector-4, Madhavpuram, Meerut (U.P.) Scheme No. 10, Sector-4, Madhavpuram, Meerut, admeasuring 62.72 sq. Rs. 14,67,000.00 Possession + Interest & Other between And House No. 169, Chahshiri, B-24, Thana Kotwali, Bijnor (U.P.) mts, in the name of Sh. Shakir Ahmed & Sh. Jakir Ahmed both Sons of Sh. **EMD** 01.00 PM Expenses Rs. 1,46,700.00 Saeed Ahmed. Bounded as: East: 5.6 mtr. 9 m. wide road, West: 5.6 mtr. 2. Sh. Jakir Ahmad S/o Sh. Syed Ahmad from 08.05.2017 to R/o House No. 4/461, Sector-4, Madhavpuram, Meerut (U.P.) And Plot No. 4/503, North: 11.20 mtr. House No. 4/462, South: 11.20 mtr. House 03.00 PM House No. 169, Chahshiri, B-24, Thana Kotwali, Bijnor (U.P.) And No. 4/460. Rs. 10.000.00

And House No. 4/486, Sector-4, Madhavpuram, Meerut (U.P.) For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm and https://ibapi.in. Also, prospective bidders may contact the authorized officer on Mobile: 8477009475 Place: Meerut

financiale

by the interim resolution professional

a class (Three names for each class)

(b)Details of authorized representatives

14. (a) Relevant Forms and

are available:

Reg No- IBBI/IPA-002/IP-N00428/2017-2018/11239

Advertisement Booking

B

징

: 0120-6651214

Sal

Date: 19.02.2021

House No. 90, Karam Ali, Meerut Distt. (U.P.)

C.L. Nirman, Authorised Officer Bank of Baroda

New Delhi